

**टाप-10 अपराधी मिदरी सहित 01 अन्य अभियुक्त को 02 अदद अवैध असलहों व 03 अदद कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर भेजा गया जेल ।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशन में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मदनापुर श्री मनोज कुमार द्वारा सक्रिय टाप टेन अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये थाना मदनापुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुयी।

दिनांक 05.10.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय द्वारा चलाये जा रहे सक्रिय अपराधियो/टाप टेन अपराधियो के विरुद्ध अभियान में थाना मदनापुर पुलिस टीम गश्त करते हुए पंखाखेडा की ओर जा रहे थे तभी पंखाखेडा से पहले गिरधरपुर मोड पर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया । जिसको शक होने पर टोका तो नही रुका बल्कि पीछे मुडकर तेज कदमों से चलने लगा । तभी एक बारगी दविश देकर समय 04.20 बजे पकड लिया गया जिसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मिदरी S/O सुल्तान उम्र 30 वर्ष लगभग ग्राम पंखाखेडा थाना मदनापुर जिला शाह0पुर बताया जिसके पास से 01 तमन्चा 12 बोर व 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुआ।

इसी क्रम में प्यारे लाल पुत्र झब्बू लाल निवासी ग्राम महमूदपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर को बन्नू नगरिया मोड से समय करीब सुबह 11.25 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिंदा 315 बोर बरामद किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों के सम्बन्ध में थाना मदनापुर पर अभियोग पंजीकृत करते हुये नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-**

- 1-मिदरी पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम पंखाखेडा थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर। (टाप-10 अभियुक्त)
- 2- प्यारे लाल पुत्र झब्बू लाल निवासी ग्राम महमूदपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

**आपराधिक इतिहास मिदरी पुत्र सुल्तान(टाप-10 अभियुक्त):-**

- 1.मु0अ0सं0 203/2014 धारा 379,411 भादवि थाना मदनापुर
- 2.मु0अ0सं0 800/2015 धारा 399,402,307 भादवि थाना मदनापुर
- 3.मु0अ0सं0 801/2015 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मदनापुर
- 4.मु0अ0सं0 1649/2017 धारा 3 यू0पी0गुण्डा एक्ट थाना मदनापुर
- 5.मु0अ0सं0 182/2017 धारा 457,380 भादवि थाना राजेपुर फर्रूखाबाद
- 6.मु0अ0सं0 47/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मदनापुर
- 7.मु0अ0सं0 524/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना मदनापुर

**बरामदगी का विवरण-**

1. 01 अदद तमन्चा 12 बोर नाजायज 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर (टाप-10 अभियुक्त मिदरी पुत्र सुल्तान)
2. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिंदा 315 बोर (प्यारे लाल पुत्र झब्बू)

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 2-उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 3-का0 2189 प्रशान्त कुमार थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 4-का0 2192 अनुज नैन थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर।